



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 1977/चैत्र 11, 1899

No. 108]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 1977/CHAITRA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st April 1977

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts raw naphtha [falling under item No 6(1) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] intended for use as fuel in the manufacture or processing of steel and steel products, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act as is in excess of Rs 500.00 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.

Provided that—

- (1) it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Central Excise that it has been so used; and

(ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

2. The exemption granted by this notification shall remain in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1979.

[No. 50/77]

N. RAJA, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 158 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मब संख्या 6 (1) के अन्तर्गत आने वाले कच्चे नैपचा को, जो इस्पात और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण और प्रसंस्करण में इस्तेमाल के रूप में प्रयोग के लिए आशयित है, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उच्चगुणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से एतद्वारा छूट देती है, जितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर 500 रूपए प्रति किलोमीटर से अधिक है ;

परन्तु यह तब जब कि :—

- (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक सीमाशुल्क क्लेक्टर को समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाए कि उसका इस प्रकार प्रयोग किया गया है ; और
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है ।

2. इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट 31 मार्च, 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं० 50/77]

एन० राजा, अव्वर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निर्यंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977